

27 मई 2020

श्री प्रहलाद सिंह पटेल  
पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
पर्यटन मंत्रालय  
भारत सरकार  
परिवहन भवन  
नई दिल्ली -110001

माननीय मंत्री महोदय

विषय: इनबाउंड पर्यटन चालक जो विदेशी पर्यटकों को लाते हैं और देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमाते हैं, उनका व्यवसायबचाने के लिए तत्काल सहायता की आवयशकता की प्रार्थना ।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स की और से सादर प्रणाम ।

सबसे पहले में IATO के सदस्यों और अन्य टूर ऑपरेटर संघ के अध्यक्षों की और से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपने कार्यालय में मिलने का समय दिया और Covid-19 के कुप्रभाव के कारण हमारे सदस्यों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर बहुत धैर्यपूर्वक सुनवाई की और सन्तावना प्रदान की ।

महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार स्थिति में सुधार होने के बाद, पर्यटन बहुत तेजी से उन्नति करेगा और हम उसके 6 से 12 महीने के भीतर अपने व्यवसाय को फिर से प्रगति पर लाएंगे तथा पर्यटन उद्योग में सभी नौकरियां सुरक्षित रखने की भरपूरकोशिश करेंगे ।

हमने आपको 20 मई को लिखे पत्र में निम्नलिखित अनुरोध किया था और आज चर्चा की :-

i) सर्वाइवल के लिए वित्तीय सहायता:

- पर्यटन चालकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि वह अपने व्यवसाय को बंद न करें और कोविड-19 के बाद अपने अनुभव के कर्मचारियों के साथ अपने व्यापार को जारी रखें । यदि कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है, तो इन सभी युवा पर्यटन पेशेवरों के पास नौकरी के बिना रहने या पर्यटन उद्योग को छोड़ने और अन्य नौकरियों को सीखने और अन्य उद्योगों में शामिल होने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, जिसके कारण हमारे पर्यटन उद्योग को कुशल पर्यटन पेशेवरों की कमी के कारण बहुत नुकसान हो सकता है ।

ii) रिवाइवल के लिए कोलेटरल मुक्त / ब्याज मुक्त ऋण:

- पर्यटन व्यवसाय के वापस शुरू होने के बाद व्यापार और एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए टूर ऑपरेटरों को विशेष कोलेटरल मुक्त और ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण (5-10 वर्ष) उपलब्ध कराया जाये ।

हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यटक चालकों के सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए ब्याज मुक्त ऋण और वित्तीय सहायता की हमारी प्रार्थना मंजूर होगी ताकि पर्यटन चालकों को व्यवसाय में बने रहने और अपने उच्च कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों को अपने साथ रखने में मदद मिल सके ।

iii) **SEIS में 7% से 10% की वृद्धि:-** उपरोक्त के अलावा आपसे विनती है की मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स को टूर ऑपरेटर्स के लिए SEIS में 7% से 10 % की वृद्धि के संबंध में हमारे द्वारा भेजे गए अनुरोध पर हमारी सहायता की जाए